

## भारतकोकिंगकोललिमिटेड

एक 'मिनीरत्नकंपनी'  
(कोल इण्डियालिमिटेडका एक अंग)  
जनसर्पकविभाग  
कोयलाभवन, कोयलानगर  
धनबाद- 826005 (झारखण्ड)  
दूरभाष/फैक्स: 0326-2230202  
वेबसाईट: www.bccl.gov.in  
ईमेल: bcclprodhanbad@gmail.com  
सीआईएन : U10101JH1972GOI000918



BHARAT COKING COAL LIMITED  
'A Mini Ratna Company'  
(A Subsidiary of Coal India Limited)  
Public Relation Department  
KoylaBhawan, Koyla Nagar  
Dhanbad- 826005 (Jharkhand).  
Phone/Fax: 0326-2230202  
website: [www.bccl.gov.in](http://www.bccl.gov.in)  
email: [bcclprodhanbad@gmail.com](mailto:bcclprodhanbad@gmail.com)  
CIN : U10101JH1972GOI000918  
दिनांक- 03.02.2017

### प्रेसविज्ञप्ति

#### " मिशन ओलंपिक मेडल "

सीसीएल और झारखंड सरकार ( जेएसएसपीएस ) के संयुक्त तत्वाधान में झारखंड के 24 जिलों से प्रतिभावान खिलाड़ियों की होगी खोज जिनहे ओलिम्पिक 2024 तक तैयार किया जाएगा ।

खिलाड़ियों के चयन की शुरुवात रजरप्पा स्टेडियम में 23 और 24 जनवरी से शुरू हुआ, जो हर जिले में होगा , धनबाद जिले में इसका चयन 08.02.2017 को आईएसएम लोअर ग्राउंड और 09.02.2017 को जैलगोरा स्टेडियम में होगा ।

हर जिले से 50 और कुल 1200 खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा। इन सभी प्रतिभागियों का चार दिवसीय कैंप रांची होटवार के खेलगांव में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जायेगा। इस कैंप में 1200 खिलाड़ियों के बीच में से 100 खिलाड़ियों का चयन किया जायेगा। चयनित खिलाड़ियों में 70 लड़के एवं 30 लड़कियों को खेल एकेडमी के तहत मिशन ओलंपिक मेडल के तहत ओलंपिक खेलों के लिये खिलाड़ी तैयार किया जायेगा। इसके बाद सभी चयनित खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में अनुभवी कोच और विश्व स्तरीय खेल प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।

धनबाद जिले के सभी साढ़े आठ से दस साल के बच्चों को इस विशाल आयोजन में सादर आमंत्रण है ।

आज धनबाद जिला के निरसा और गोविंदपुर प्रखंड के करीब 500 विद्यालय के प्राचार्य को मिशन ओलंपिक मेडल के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई और उन्हें अधिक से अधिक बच्चों को इसमें लाने के लिए कहा गया।

आप ऑनलाइन फॉर्म इस लिंक द्वारा भर सकते हैं <http://www.jharkhandcclsports.in/sptrial/>

अन्य जानकारी आप यहां से ले सकते हैं [http://www.jharkhandcclsports.in/notice-.../notc\\_eng\\_trial.pdf](http://www.jharkhandcclsports.in/notice-.../notc_eng_trial.pdf)

सरस्वती विद्या मंदिर में बच्चों को आगामी चयन के लिए जानकारी देते हुए , देव कुमार वर्मा , उप प्रबंधक

